

स्थान वरीयता उपलब्ध कराने हेतु निर्देश और दिशानिर्देश

संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) और संविदा स्टाफ नर्स, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश के पदों के लिए, 30 और 31 जुलाई, 2021 को ऑनलाइन लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश के तहत संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम); और संविदा स्टाफ नर्स के पदों के लिए लिखित परीक्षा में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों से स्थान वरीयता उपलब्ध कराने के लिए एक ऑनलाइन आवेदन पत्र विकसित किया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से उम्मीदवार अपना स्थान वरीयता प्रदान कर सकते हैं।

स्थान वरीयता प्रदान करने के लिए चरण, प्रक्रिया और निर्देश निम्नलिखित हैं:

- (1) उम्मीदवारों को अपने आवेदन संख्या/ रोल नंबर और जन्मतिथि के साथ दिये गए लिंक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम पद के लिए <https://qm.samshrm.com/prefupdateANM/> और स्टाफ नर्स पद के लिए <https://qm.samshrm.com/prefupdateSN/> से ऑनलाइन आवेदन पर लॉगइन करना होगा;
 - (2) उम्मीदवारों को आवंटन के लिए अपनी पसंद के स्थान प्रदान करने के लिए ड्रॉपडाउन बॉक्स से स्थान चुनना होगा।
 - (3) उम्मीदवार को न्यूनतम 100 स्थानों के लिए वरीयता प्रदान करनी होगी। यदि वे न्यूनतम 100 स्थानों के लिए वरीयता प्रदान करने का विकल्प नहीं चुनते हैं तो सभी स्थानों के लिए उनकी उम्मीदवारी पर विचार किया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों के लिए उन्हें यादृच्छिक स्थान आवंटित किया जाएगा;
- नोट:** ऑनलाइन स्थान वरीयता फॉर्म में न्यूनतम 100 स्थान वरीयताएँ प्रदान किए बिना, उम्मीदवार अपना स्थान वरीयता फॉर्म जमा कर नहीं पाएंगे।
- (4) **स्व-घोषणा पर हस्ताक्षर:** "मैं पूरी तरह से समझता/ समझती हूँ कि स्थान वरीयता का विवरण, जैसा कि ऊपर है, केवल सूचना के उद्देश्य से मांगा गया है। नौकरी का पद स्थापन चयनित उम्मीदवार की समग्र योग्यता रैंक और स्थान वरीयताओं के आधार पर तय की जाएगी और यदि मेरे द्वारा प्रदान की गई स्थान वरीयता समाप्त हो जाती है, तो एक यादृच्छिक स्थान आवंटित किया जाएगा। मैं उपरोक्त प्रक्रिया के माध्यम से या उनके विवेक और स्थानों की उपलब्धता के अनुसार एनएचएम, एमपी द्वारा निर्धारित पद स्थापन के स्थान का पालन करने के लिए पूरी तरह से सहमत हूँ।
 - (5) स्थान वरीयता सबमिट करने से पहले, चयनित स्थान और वरीयताओं का पूर्वावलोकन कर लें;
 - (6) अंतिम रूप से स्थान वरीयता का सबमिशन वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) पर आधारित होगा, ओटीपी पंजीकृत मोबाइल नंबर (आरएमएन) पर भेजा जाएगा, उम्मीदवार पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए सही पासवर्ड (ओटीपी) इनपुट करने के बाद फॉर्म जमा करेंगे;
 - (7) स्थान वरीयता जमा करने के लिए चार (4) दिन की समय अवधि दी गयी है, उम्मीदवार 25 सितंबर, 2021, शाम 4:00 बजे से 29 सितंबर, 2021, दोपहर 3:59 बजे तक उपरोक्त पदों के लिए अपना स्थान वरीयता प्रदान कर सकते हैं।

ध्यान दें:

(क) उम्मीदवार, स्थान वरीयता जमा करने की अंतिम तिथि तक अपने स्थान वरीयता को संशोधित करने में

सक्षम होंगे। अंतिम तिथि के वृद्धि की स्थिति में, पिछली जमा की गई स्थान वरीयता विवरण को संशोधित नहीं किया जा सकता है;

(ख) जो उम्मीदवार उपरोक्त निर्धारित अवधि या किसी विस्तार अवधि के भीतर स्थान वरीयता प्रदान करने में विफल रहते हैं, ऐसे उम्मीदवारों के लिए 'यादृच्छिक स्थान' आवंटन किया जाएगा।

(ग) **नियम पुस्तिका खंड संख्या 6.12**, जिसमें कहा गया है कि उम्मीदवार अधिकतम 10 स्थानों के लिए स्थान वरीयता दे सकता है, को संशोधित किया गया है। अब उम्मीदवार न्यूनतम 100 स्थानों के लिए वरीयता प्रदान कर सकते हैं।